



## गेल (इंडिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम – महारत्न कंपनी)

## GAIL (India) Limited

(A Government of India Undertaking - A Maharatna Company)

गेल भवन,  
16 भीकाएजी कामा प्लेस  
नई दिल्ली-110066, भारत  
GAIL BHAWAN,  
16 BHIKAJI CAMA PLACE  
NEW DELHI-110066, INDIA  
फोन/PHONE: +91 11 26182955  
फैक्स/FAX: +91 11 26185941  
ई-मेल/E-mail: info@gail.co.in

ND/GAIL/SECTT/2020

11.11.2020

1. Listing Compliance National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400051 <b>Scrip Code: GAIL-EQ</b>	2. Listing Compliance BSE Limited Floor 1, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400001  <b>Scrip Code: 532155</b>
--	--

**Sub.: Newspaper Publication of the Un-Audited Financial Results for the quarter/half year ended 30<sup>th</sup> September, 2020 Regarding**


Dear Sir/Madam,

This is in compliance of Regulation 30 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

With reference to the subject cited above, please find the attachment.

The above is for your information and records.

**Thanking you,  
Yours faithfully,**

  
(A.K. Jha)  
Company Secretary

Encl: As above

# Crowd control in focus at mkts ahead of Diwali

## All Entrances At Sarojini Regulated By Cops, Volunteers

Vibha Sharma/etimesgroup.com

New Delhi: District administration, police and civic bodies have lined up for crowd management at prominent markets during the festive season in the wake of the surge in COVID-19 cases in the capital. The measures aim at other portions of Sarojini Nagar market had to be shut down when the crowd swelled in several markets, cops and the situation became chaotic.

On Tuesday, all entrances of Sarojini Nagar market were regulated by police and a number of volunteers and police staff were deployed in an advisory to prevent the market from becoming a hot spot for COVID-19. The market is one of the most popular shopping destinations in the city. The market is known for its variety of goods, including clothing, footwear, and electronics. The market is also known for its vibrant atmosphere and the presence of many small businesses.



Hawkers encroaching upon pavements make situation worse at Sarojini Nagar

On Tuesday, all entrances of Sarojini Nagar market were regulated by police and a number of volunteers and police staff were deployed in an advisory to prevent the market from becoming a hot spot for COVID-19. The market is one of the most popular shopping destinations in the city. The market is known for its variety of goods, including clothing, footwear, and electronics. The market is also known for its vibrant atmosphere and the presence of many small businesses.

On Tuesday, all entrances of Sarojini Nagar market were regulated by police and a number of volunteers and police staff were deployed in an advisory to prevent the market from becoming a hot spot for COVID-19. The market is one of the most popular shopping destinations in the city. The market is known for its variety of goods, including clothing, footwear, and electronics. The market is also known for its vibrant atmosphere and the presence of many small businesses.



Hawkers encroaching upon pavements make situation worse at Sarojini Nagar

On Tuesday, all entrances of Sarojini Nagar market were regulated by police and a number of volunteers and police staff were deployed in an advisory to prevent the market from becoming a hot spot for COVID-19. The market is one of the most popular shopping destinations in the city. The market is known for its variety of goods, including clothing, footwear, and electronics. The market is also known for its vibrant atmosphere and the presence of many small businesses.

On Tuesday, all entrances of Sarojini Nagar market were regulated by police and a number of volunteers and police staff were deployed in an advisory to prevent the market from becoming a hot spot for COVID-19. The market is one of the most popular shopping destinations in the city. The market is known for its variety of goods, including clothing, footwear, and electronics. The market is also known for its vibrant atmosphere and the presence of many small businesses.



Hawkers encroaching upon pavements make situation worse at Sarojini Nagar

# AAP targets corps for 'failure' to provide med help to pensioners

New Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) has targeted the government for its failure to provide medical help to pensioners. The party has accused the government of neglecting the needs of pensioners and has demanded that the government should take immediate steps to provide medical help to pensioners. The party has also accused the government of being corrupt and of misusing public funds.

The party has also accused the government of being corrupt and of misusing public funds. The party has also accused the government of being corrupt and of misusing public funds. The party has also accused the government of being corrupt and of misusing public funds.



Pensioners waiting for medical help at a hospital

# Cracker ban: Flying squads to check sale

New Delhi: From forming special teams to children being trained during their online classes, Delhi Police is taking several measures to ensure that the cracker ban is implemented across the national capital. All the districts DCs have been directed to constitute flying squads to check cracker sale in their respective areas.

Delhi Police, in an order, has asked its officers to engage with RWAs, NGOs and school authorities to ban the sale of crackers. The police has also asked the RWAs to be vigilant on the sale of crackers and to prevent the sale of spurious khoya. The government is serious about the health of Delhiites. We are keeping a vigil on the sale of khoya/maawa as these are used to prepare sweets, which are in high demand during Diwali, health minister Satyendar Jain said on Tuesday.

# Govt sets up 6 teams to keep watch on spurious khoya

New Delhi: To ensure quality of sweets during Diwali, Delhi government has launched a special drive to prevent sale of spurious ingredients. The government is keeping strict vigilance on the sale of khoya/maawa (whole dried milk), widely used in making most Indian sweets. Six enforcement teams have been deployed to conduct raids in various parts of the city to prevent the sale of spurious khoya.

The government is serious about the health of Delhiites. We are keeping a vigil on the sale of khoya/maawa as these are used to prepare sweets, which are in high demand during Diwali, health minister Satyendar Jain said on Tuesday. The drive, five raids have been conducted by teams of food safety officers at the Khayamandi auction site at Mori Gate, from where khoya is distributed all over Delhi. The officials have lifted 26 for and samples from various stalls and 188 surveillance samples for the on-the-spot testing in a mobile food testing van, a statement said, adding that about 200kg spurious or suspected khoya was seized and destroyed.

**ISB & M**  
International School of Business & Media  
Pune - Noida & Mohali | Kolkata | Bangalore

**Admission Open - PGDM (AICTE) Batch : 2021-23**  
**Pune's 2nd Most Preferred B-School**

**Baratam Vishwa**  
Batch: 2018 - 20  
PGDM - Finance

**Package 21 Lacs CTC**

Ranked 9<sup>th</sup> in Top Private Institutes Times 3 School

Legacy of High Career Placement in Campus Recruitment Batch : 2019-21

Competitive learning environment & academic rigour, Culture & Process that drive talent development for leadership roles & a rewarding career.

# 'No conversion fee for any old industry for service shift'

New Delhi: Under its new industrial policy, Delhi government has decided to waive off the conversion fees for any existing manufacturing industry that wants to switch to the service sector, industry minister Satyendar Jain said on Tuesday.

Under the policy, only high-tech and service industries will be allowed to be set up in new industrial areas while existing manufacturing industries in the old zones can shift to the service sector. Jain convened a meeting with various industries associations on Tuesday to address industrialists' concerns regarding the recent notification. The associations called the policy revolutionary and expressed confidence that it would help in the expansion and growth of the industrial sector. "As per the amendments in the master plan 2021, hi-tech industries will be set up in new industrial areas, something that we were trying for the past four years. These sectors were not legally allowed to be set up in traditional industrial areas," he added. "The old industrial areas can cater to both hi-tech services and old services, while the new industrial areas can only set up hi-tech ones."

In the new areas, offices of chartered accountants, lawyers and media houses can be opened, besides various industries such as those dealing with computer hardware and software, system integration and manipulation of interfaces between computer and telecom facilities, IT services, internet and email provider, and IT-enabled services. "We have also increased the floor area ratio (FAR) of certain industrial areas to cater to hi-tech services. The new FAR has been approved as per industrial standards," the minister stated. He also said that hi-tech services would be allowed in all industrial areas, including Bawana and Badli. Jain clarified that the decision won't impact the old industrial sectors. "The decision was made after due consideration with the Union minister and in addition to the already running industrial activities across Delhi," he pointed out.

# 15-yr-old driving dad's scooter mowed down by tempo

New Delhi: A 15-year-old boy driving his father's scooter, was mowed down by a tempo in South Delhi's Fatehpur Beri on Monday evening. It appears that the minor was not wearing a helmet as cops did not find any helmet at the spot. The deceased was identified as Jitesh, a Class X student of a government school. He was returning after buying sweets from a local shop when he was hit by the tempo loaded with marbles. The tempo driver was arrested from the spot and booked under Section 279A (rash driving on a public way) and 304A (causing death due to negligence) of the Indian Penal Code. 17N

**GAIL (India) Limited**  
(A Govt. of India Undertaking)

**FUELING THE FUTURE OF AATMANIRBHAR BHARAT**

**Extract from the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30<sup>th</sup> September 2020**

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated						
		Quarter Ended	Half Year Ended	Financial Year Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Financial Year Ended				
1	Total Income from operations	13,644.46	18,041.05	25,731.92	36,352.52	71,876.35	138,009.86	18,249.90	25,990.48	36,731.46	72,567.70
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,550.34	1,535.51	1,906.53	3,516.03	7,841.73	1,432.00	1,706.47	2,160.74	4,013.93	10,428.94
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,550.34	1,535.51	1,906.53	3,516.03	7,841.73	1,432.00	1,706.47	2,160.74	4,013.93	10,428.94
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,239.67	1,064.25	1,495.18	2,351.78	6,620.63	1,068.16	1,167.58	1,711.13	2,671.25	9,514.64
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	721.80	(3.44)	1,406.32	1,412.88	3,820.67	549.33	172.41	1,604.57	1,887.79	6,781.75
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10 each)	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet					37,433.66					42,638.50
8	Earnings per share (Face Value of ₹ 10 each)										
	a) Basic	2.75	2.36	3.32	5.21	14.68	2.47	2.59	3.92	5.92	20.89
	b) Diluted	2.75	2.36	3.32	5.21	14.68	2.47	2.59	3.92	5.92	20.89

(EPS for the Quarter and Half Year are not annualised)

**Extract from the Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Half Year Ended 30<sup>th</sup> September 2020**

(₹ in Crore Except EPS)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated						
		Quarter Ended	Half Year Ended	Financial Year Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	Financial Year Ended				
1	Total Income from operations	13,644.46	18,041.05	25,731.92	36,352.52	71,876.35	138,009.86	18,249.90	25,990.48	36,731.46	72,567.70
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,550.34	1,535.51	1,906.53	3,516.03	7,841.73	1,432.00	1,706.47	2,160.74	4,013.93	10,428.94
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,550.34	1,535.51	1,906.53	3,516.03	7,841.73	1,432.00	1,706.47	2,160.74	4,013.93	10,428.94
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,239.67	1,064.25	1,495.18	2,351.78	6,620.63	1,068.16	1,167.58	1,711.13	2,671.25	9,514.64
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	721.80	(3.44)	1,406.32	1,412.88	3,820.67	549.33	172.41	1,604.57	1,887.79	6,781.75
6	Paid up Equity Share Capital (Face value of ₹ 10 each)	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14	4,510.14
7	Reserves excluding Revaluation Reserves as per Balance Sheet					37,433.66					42,638.50
8	Earnings per share (Face Value of ₹ 10 each)										
	a) Basic	2.75	2.36	3.32	5.21	14.68	2.47	2.59	3.92	5.92	20.89
	b) Diluted	2.75	2.36	3.32	5.21	14.68	2.47	2.59	3.92	5.92	20.89

(EPS for the Quarter and Half Year are not annualised)

**Notes:**

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30<sup>th</sup> September 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosures Regulations) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchanges website ([www.sebiindia.com](http://www.sebiindia.com)) and Company's website ([www.gailindia.com](http://www.gailindia.com)).
- The above Unaudited Financial Results are in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015, (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, read with the relevant rules issued thereunder and other accounting principles generally accepted in India.
- Figures for the previous periods have been regrouped, wherever necessary, to conform to the current period's classification.

Date: 10<sup>th</sup> November, 2020  
(CIN L40200DL1984G01001876)

For GAIL (India) Limited  
(A Govt. of India Undertaking)  
Director (Finance) and CFO  
(DIN: 02654512)

#EnergizingPossibilities

